

सीएसआईआर - केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान
पिलानी (राजस्थान) 333031

सं. 35/33/राभा(आईआईएसएफ)-2020

दिनांक : 18.12.2020

सूचना

विषय : आईआईएसएफ 2020 के अंतर्गत संस्थान में एसईएमसी एंड एक्सपो (SEMC & Expo) - होमी जे भाभा विज्ञान यात्रा का वर्चुअल आयोजन।

सीएसआईआर-सीरी तथा विज्ञान भारती - राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आगामी 23 - 24 दिसंबर, 2020 को आयोजित किए जा रहे स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग मॉडल कॉम्पिटिशन एंड एक्सपो (SEMC & Expo) के अंतर्गत कल, दिनांक 19 दिसंबर, 2020 को (अप. 3 - 5 बजे तक) होमी जे भाभा विज्ञान यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह विज्ञान यात्रा वर्चुअल माध्यम से आयोजित की जाएगी। **आयोजन की अध्यक्षता डॉ शेखर सी मांडे, महानिदेशक, सीएसआईआर एवं सचिव, डीएसआईआर, भारत सरकार द्वारा की जाएगी तथा राजस्थान पत्रिका समूह के अध्यक्ष श्री गुलाब कोठारी इस अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे।** संस्थान के निदेशक डॉ पी सी पंचारिया द्वारा इस अवसर पर स्वागत उद्बोधन दिया जाएगा।

आयोजन के अन्य अतिथि/वक्ता आदि निम्नवत हैं :

विशिष्ट अतिथि	आधार व्याख्याता (Keynote Speakers)
1. डॉ प्रजा पालीवाल गौड़, अपर महानिदेशक, प्रेस सूचना ब्यूरो, जयपुर	1. प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, सचिव, डीएसटी
2. प्रोफेसर संजीव कुमार, निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, राजस्थान	2. श्री जयंत सहस्रबुद्धे, राष्ट्रीय आयोजन सचिव, विज्ञान भारती
3. प्रोफेसर जे एस संधू, कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर	
4. प्रोफेसर उदय कुमार यारागट्टी, निदेशक, MNIT, Jaipur	

यह आयोजन वर्चुअल रूप में आयोजित किया जाएगा जिसमें सभी अतिथियों सहित विज्ञान भारती - राजस्थान के पदाधिकारी संस्थान के जयपुर केंद्र में स्थित नियंत्रण कक्ष से एम एस टीम्स के माध्यम से जुड़ेंगे। संस्थान के सभी सहकर्मियों से अनुरोध है कि कृपया कल 19 दिसंबर, 2020 को (अप. 3 - 5 बजे तक) समारोह में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। विज्ञान यात्रा से ऑनलाइन जुड़ने के लिए यूट्यूब लिंक निम्नवत है :

<https://youtu.be/gDI-l44CAul>

यह निदेशक महोदय की अनुमति से जारी किया जा रहा है।



(रमेश बौरा)

हिंदी अधिकारी

प्रमुख, मीडिया एवं जनसंपर्क यूनिट
मीडिया समन्वयक, एसईएमसी

प्रतिलिपि :

1. निदेशक कार्यालय, सीएसआईआर-सीरी
2. प्रमुख, पीएमई 3. प्रशासनिक अधिकारी 1 एवं 2
4. संस्थान के सभी विभागाध्यक्ष/समूह प्रमुख
5. प्रमुख, एन एम सी - कृपया इसे वेबसाइट पर अपलोड करवा दें। 6. सूचना पट्ट